

राजभाषा विभाग की दिसम्बर, 2018 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) दिनांक 27.12.2018 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तीन सत्रों में आयोजित की गई जिसमें 60 मंत्रालयों / विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।
- (ii) देश के विभिन्न नगरों में 101 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (iii) राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से मुंबई और कोलकाता में 18 हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए।
- (iv) विभाग में दिसम्बर, 2018 माह में 63 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (v) दिनांक 03.12.2018 से 07.12.2018 तक 475वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 27 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।
- (vi) उप निदेशक (मध्योत्तर) के अधीन श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर कार्यालय में दिनांक 14.11.2018 से 06.12.2018 तक गहन प्राज्ञ (विशेष) का आयोजन किया गया।
- (vii) गहन हिंदी कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान /हिंदी शिक्षण योजना के कार्मिकों हेतु 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम - 2013' के उपबंधों के बारे में व्यापक जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 26 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (viii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिसम्बर, 2018 माह में 07 प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित किए गए जिसमें 165 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।
- (ix) दिसम्बर, 2018 में कुल 653 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई।
- (x) विभिन्न गृह पत्रिकाओं के लिए माननीय गृह मंत्री / सचिव / संयुक्त सचिव के संदेश तैयार कर भेजे गए।
